

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2023—भाद्र 17, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, पल्लवी अग्रवाल, उम्र 32 वर्ष, पिता श्री प्रभात कुमार अग्रवाल, निवासी मकान नंबर 272, संजीवनी नगर, जबलपुर, मेरी शैक्षणिक सभी दस्तावेजों में मेरा नाम पल्लवी अग्रवाल लिखा है, परंतु मेरे शेरर सर्टिफिकेट में मेरा नाम गलती से रिमझिम लिख गया है जो कि गलत है मेरा सही नाम पल्लवी अग्रवाल है उपरोक्त नाम के एक ही व्यक्ति हैं।

पल्लवी अग्रवाल

(G-1693)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हासमी युन कुरैशी पिता हनीफ कुरैशी जाति बेहना, निवासी ग्राम भरगा, पोस्ट झिरी, तहसील छपारा, जिला सिवनी (म.प्र.) करता हूँ, कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम हासमी युन कुरैशी अंकित है। अब मेरे द्वारा नाम परिवर्तन कर अदनान कुरैशी पिता हनीफ कुरैशी कर लिया गया है। अब भविष्य में मुझे अदनान कुरैशी के नाम से जाना, पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(हासमी युन कुरैशी)

नया नाम

(अदनान कुरैशी)

पिता हनीफ कुरैशी.

(G-1694)

CHANGE OF NAME

I, Pallavi Ansal W/o Arpit Manrao, R/o C-602, Royal Amar Greens, Niranjapur, Indore have changed my name to Pallavi Manrao after marriage for all future purposes.

पुराना नाम
(पल्लवी अंसल)
(PALLAVI ANSAL)
पिता—कंवलजीत अंसल
D/o Kanwal Jeet Ansal.

नया नाम
(पल्लवी मनराओ)
(PALLAVI MANRAO)
पिता—अर्पित मनराव,
W/o Arpit Manrao.

(G-1695)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स ओजश्वी इंफ्रा वेंचर मुख्यालय जी - 13/2, कँवर कॉलोनी, बड़वाह, म.प्र. में से रचना शाह पिता नरेंद्र शाह एवं बालकृष्ण पटेल पिता राधेश्याम पटेल सेवामुक्त हो गये हैं, उपरोक्त परिवर्तन दिनांक 01-02-2023 से लागू माना जायेगा तथा उपरोक्त तिथि के बाद दोनों भागीदारों का फर्म से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा.

अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो सहायक पंजीयक रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी, इंदौर, म.प्र. में अपनी आपत्ति सकारण दर्ज करायें.

मेसर्स ओजश्वी इंफ्रा वेंचर
अंकित पाटिल

पिता—हुकुमचंद पाटिल एवं अजय तंवर पिता बाग सिंह तंवर
(भागीदार).

(G-1696)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म S S R ASSOCIATES, पता—H. No.-17/2, K-Sector, Vandana Nagar, Gehu Kheda, Kolar Road, Tah-Huzur, Dist.-Bhopal (M.P.) 462042 है, जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/0379/22 सन् 2021-22, दिनांक 18-01-2022 में रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं भोपाल संभाग म.प्र. में पंजीयत है, इस भागीदारी का गठन दिनांक 01/01/ 2022 को श्रीमती प्राची रावत पत्नि श्री सचिन रावत एवं श्रीमती प्रवेश यादव पत्नि श्री संतोष यादव द्वारा किया गया, इस फर्म में दिनांक 16-08-2023 को भागीदार श्रीमती प्राची रावत अपनी, स्वेच्छा से पृथक् हो रही हैं, तथा दिनांक 16-08-2023 को श्री दीपक यादव पिता श्री शुखनंदन यादव को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया, फर्म वर्तमान में श्रीमती प्रवेश यादव एवं श्री दीपक यादव भागीदारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, आमजन एवं सर्वजन को सूचित किया जाता है.

M/s S S R ASSOCIATES
PRAVESH YADAV
(Partner)

H. No.-17/2, K-Sector, Vandana Nagar,
Gehu Kheda, Kolar Road, Tah-Huzur,
Dist.-Bhopal (M.P.) 462042

(G-1697)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म J S B Associates, पता—H. No.-10, New Friends Housing Society, Kolar Road, Chuna Bhatti, Tah-Huzur, Dist.-Bhopal (M.P.) 462016 है, जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/0327/21 सन् 2021-22, दिनांक 11-12-2021 में रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं भोपाल संभाग म.प्र. में पंजीयत है, इस भागीदारी का गठन दिनांक 02-12-2021 को श्री जयपाल सिंह बिष्ट पिता स्व. श्री इन्दर सिंह बिष्ट, श्री सचिन रावत पिता स्व. श्री एस. एस. रावत एवं श्री संतोष यादव पिता श्री सुखनंदन यादव द्वारा किया गया, इस फर्म में दिनांक 05-08-2023 को भागीदार श्री संतोष यादव अपनी स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं तथा दिनांक 05-08-2023 को श्री जमशेद अख्तर पिता श्री शकील अहमद को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया, फर्म वर्तमान में श्री जयपाल सिंह बिष्ट, श्री सचिन रावत एवं श्री जमशेद अख्तर भागीदारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तथा सभी भागीदारों के लाभ-हानि के अनुपात में भी परिवर्तन किया गया है।

For-J S B Associates**SACHIN RAWAT**

(Partner)

H. No.-10, New Friends Housing Society,
Kolar Road, Chuna Bhatti, Tah-Huzur,
Dist.-Bhopal (M.P.) 462016.

(G-1698)

PUBLIC NOTICE**U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firms "M/S MATA RANI ELECTRICALS" of Betul vide Reg. No. 01/06/01/0068/20, year 2020-2021 date of Registration 08-07-2020 undergone the following changes :-

That Shri Laxmikant Yadav S/o Shri Hukum Chand Yadav have expressed his desire to join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them and further Shri Deenu Pawar S/o Shri Girdhari Pawar and Shri Dheeraj Yadav S/o Shri Hukum Chand Yaddav in pursuance to his desire to retire from the partnership firm w.e.f. 01-06-2023.

"M/S MATA RANI ELECTRICALS"**DEEPAK YADAV**

(Partner)

7, Near Sita Bai, Thana Road,
Tikari Baitul-460001.

(G-1699)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कल्पना चौहान (KALPANA CHAUHAN) पति श्री जीतेश चौहान था, जो कि मेरे प्रमाण पत्रों पर अंकित हो गया है, जिसको मैंने परिवर्तित कर मीता चौहान (MEETA CHAUHAN) पति श्री जीतेश चौहान कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे मीता चौहान पति श्री जीतेश चौहान के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम

(कल्पना चौहान)

नया नाम

(मीता चौहान)

पति—श्री जीतेश चौहान,

पता—18, डी—सेक्टर बी, स्लाइस 2,

स्कीम नं. 78, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)452003.

(G-1700)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व नाम ज्योति राजानी पुत्री श्री राधा कृष्ण राजानी था। जो कि विवाह उपरांत नाम परिवर्तित होकर श्रीमती ज्योति लालचंदानी हो गया है।

अतः भविष्य में मुझे श्रीमती ज्योति लालचंदानी पत्नी श्री अशोक लालचंदानी के नाम से ही शासकीय, अर्ध-शासकीय व गैर-शासकीय, जाना-पहचाना, पुकारा, पढ़ा एवं लिखा जावे एवं सभी दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(ज्योति राजानी)

पुत्री-श्री राधा कृष्ण राजानी.

(G-1701)

नया नाम

(ज्योति लालचंदानी)

पत्नी-श्री अशोक कुमार लालचंदानी.

नाम परिवर्तन

मैं, मनोहर पिता स्व. नारायणदास राजानी एवं श्रीमती रोशनी पति मनोहर राजानी, निवासी 65-बी, शिवोम एस्टेट, स्टेशन रोड, देवास (म.प्र.) में हमारी अव्यस्क पुत्री कु. पूनम का नाम परिवर्तन किया गया है और वह वर्तमान में तथा भविष्य में कु. रिशिका (Risihika) के नाम से जानी-पहचानी जावेगी।

मनोहर

(G-1702)

पिता-स्व. नारायणदास राजानी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का पूर्व नाम आन्या अग्रवाल पुत्री श्री ब्रजेश अग्रवाल, निवासी-म. नं. 08, सिटी कोतवाली रोड, भोपाल, (म.प्र.) है। मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में नाम आन्या अग्रवाल पिता ब्रजेश अग्रवाल है। अतः मेरी पुत्री को अब नये नाम माही अग्रवाल पुत्री श्री ब्रजेश अग्रवाल के संशोधित नाम से ही जाना-पहचाना जाये एवं भविष्य में मेरी पुत्री के नये नाम माही अग्रवाल का उल्लेख समस्त अभिलेखों में किया जाये।

पुराना नाम

(आन्या अग्रवाल)

पिता-ब्रजेश अग्रवाल.

(G-1703)

नया नाम

(माही अग्रवाल)पुत्री-श्री ब्रजेश अग्रवाल,
निवासी-म. नं. 08, सिटी कोतवाली रोड,
भोपाल (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

मैं, निर्जेश सेन NIRJESH SEN आत्मज श्री सूरत सेन, आयु वयस्क, निवासी-ग्राम केथोरा, पोस्ट केथोरा, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश.

मेरी पुत्री आयुषी सेन (AYUSHI SEN) मेरी पुत्री के शैक्षणिक रिकॉर्ड में त्रुटिवश उसका नाम आयुषि कुमारी AYUSHI KUMARI दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। आधारकार्ड में भी मेरी पुत्री का नाम आयुषी सेन अंकित है। अतः भविष्य में उसे आयुषी सेन पिता निर्जेश सेन के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम

(आयुषि कुमारी)
(AYUSHI KUMARI)

(G-1704)

नया नाम

(आयुषी सेन)
(AYUSHI SEN)पिता-निर्जेश सेन.
NIRJESH SEN

नाम परिवर्तन

मैं, सोनिया मालवीय पुत्री श्री मनोहर मालवीय, निवासी मकान आई Type I/59, भरत नगर गुलमोहर, भोपाल मध्यप्रदेश का पूर्व नाम हेमा मालवीय था. सोनिया मालवीय और हेमा मालवीय दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे ही हैं. अब भविष्य में मुझे सोनिया मालवीय पिता श्री मनोहर मालवीय के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम

(हेमा मालवीय)

(G-1705)

नया नाम

(सोनिया मालवीय)

नाम परिवर्तन

मैं, विवेक कुमार चौधरी पिता रामजी चौधरी सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ, कि मेरे विद्यालयीन शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम विवेक कुमार चौधरी एवं विवेक चौधरी दर्ज है जो कि दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. अतः भविष्य में मुझे विवेक चौधरी के नाम से जाना व पहचाना पढ़ा-लिखा जावे.

पुराना नाम

(विवेक कुमार चौधरी)

(G-1706)

नया नाम

(विवेक चौधरी)

पता-65, साईं कॉलोनी, संचार नगर,
दीनदयाल उपाध्याय, वार्ड जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रमिला सातनकर पत्नि श्री दिनेश सातनकर आयु-वयस्क, निवासी-39, अमृतपुरी खजूरी कला तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम प्रमिला सातनकर पत्नि श्री दिनेश सातनकर है तथा समस्त दस्तावेजों, शासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम प्रमिला सातनकर है, मेरी शैक्षणिक एवं विभिन्न शासकीय/अनिवार्य दस्तावेजों, मैं आज से अपना नाम परिवर्तन कर ज्योति सातनकर कर रही हूँ अतः भविष्य में मुझे ज्योति सातनकर के नाम से ही जाना जाएगा.

पुराना नाम

(प्रमिला सातनकर)

(G-1707)

नया नाम

(ज्योति सातनकर)

पत्नि-श्री दिनेश सातनकर

CHANGE OF NAME

I, Uday Kumar Agrawal (उदय कुमार अग्रवाल) S/o Lt. Jeewan Das Mittal, aged 68 Years, R/o A-37, BDA Colony, Koh-e-Fiza, Bhopal (M.P.) 462001 have decided to change my name to Uday Kumar Mittal (उदय कुमार मित्तल) from today. That I shall be known by the name of Uday Kumar Mittal (उदय कुमार मित्तल) from now on for all purposes.

पुराना नाम

(UDAY KUMAR AGRAWAL)

(G-1708)

(उदय कुमार अग्रवाल)

नया नाम

(UDAY KUMAR MITTAL)

(उदय कुमार मित्तल)

CHANGE OF SURNAME

I, am Army Service Name Hemant Kumar S/o Ramchandra, Resident of Nanda Nagar, Indore District Indore (M.P.) have changed my name from Hemant Kumar to Hemant Chandwadkar.

पुराना नाम
(हेमंत कुमार)
(HEMANT KUMAR)
(G-1709)

नया नाम
(हेमंत चांदवडकर)
(HEMANT CHANDWADKAR)
Address-Nanda Nagar, Indore,
District Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, यशोदा प्रसाद (YASHODA PRASAD) उम्र 50 वर्ष आत्मज स्व. डेविड पॉल, निवासी म. नं. 2892, न्यू कंचनपुर अधारताल, जिला जबलपुर की निवासी हूँ. मेरी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में मेरा नाम यशोदा प्रसाद (YASHODA PRASAD) दर्ज है, मेरे आधारकार्ड में मेरा नाम डॉरथी (DOROTHY) एवं पेनकार्ड में मेरा नाम डॉरथी पॉल (DOROTHY PAUL) दर्ज है. यशोदा प्रसाद (YASHODA PRASAD) एवं डारथी (DOROTHY) एवं डारथी पॉल (DOROTHY PAUL) ये तीनों नाम मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः मेरा नाम यशोदा प्रसाद (YASHODA PRASAD) के स्थान पर मेरा नाम डारथी पॉल (DOROTHY PAUL) के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम
(यशोदा प्रसाद)
(YASHODA PRASAD)
(G-1710)

नया नाम
(डारथी पॉल)
(DOROTHY PAUL)
पता-म. नं. 2892, न्यू कंचनपुर,
अधारताल, जिला जबलपुर.

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं मनोज (MANOJ) आत्मज स्व. मान सिंह, निवासी पिपरिया, सोनपुर, जिला जबलपुर मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मनोज कुमार (MANOJ KUMAR) और मनोज यादव (MANOJ YADAV) दर्ज है. अतः मुझे सही नाम मनोज यादव (MANOJ YADAV) के नाम से जाना, पहचाना जावे. दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मनोज)
(MANOJ)
(G-1711)

नया नाम
(मनोज यादव)
(MANOJ YADAV)

CHANGE OF NAME

It is for general information that I, GUDDI DEVI W/O ANIL PRATAP SINGH D/O ASHA RAM RAJPOOT, R/o 40, Thakuran Tola Ujaraundha, Gram-Ujaraundha, Post-Deori Kala, Tehsil Raghurajnagar, Ujaraundha, Satna, Madhya Pradesh declare that name of mine and my father has been wrongly written as GUDDI SINGH and SHRI ASHA RAM SINGH in My National Cadet Corps Certificate "C". The actual name of mine and my father are GUDDI DEVI and ASHA RAM RAJPOOT respectively which may be amended accordingly.

(G-1712)

GUDDI DEVI

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आधार कार्ड में गुरुचरण कौर पत्नी स्व. श्री एस.एस. चीमा है तथा समस्त दस्तावेजों, शासकीय एवं अंकसूची में मेरा नाम मनजीत कौर चीमा है मैंने अपना नाम आधार कार्ड में परिवर्तित कर मनजीत कौर (Manjeet Kaur) कर लिया है. अतः अब मुझे मनजीत कौर के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(गुरुचरण कौर)

नया नाम
(मनजीत कौर)
(Manjeet Kaur)
पता-म.नं.-1351, अर्जुन वार्ड,
गांधी नगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-1713)

नाम परिवर्तन

मैं, श्यामराव अहाके (Shyamrao Ahakey) S/o श्यामू अहाके (Shyamu Ahakey) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम श्यामराव अहाके (Shyamrao Ahakey) S/o श्यामू अहाके (Shyamu Ahakey) है. जो कि सही है परंतु मेरे आधार कार्ड में श्यामराव अहाके (Shyamrrao Ahake) S/o श्यामू अहाके (Shyamu Ahakey) दर्ज हो गया. जो कि गलत है. अतः मुझे श्यामराव अहाके (Shyamrao Ahakey) S/o श्यामू अहाके (Shyamu Ahakey) के नाम से ही जाना पहचाना और पुकारा जाए.

पुराना नाम
(श्यामराव अहाके)
(Shyamrrao Ahake)

नया नाम
(श्यामराव अहाके)
(Shyamrao Ahakey)
S/o श्यामू अहाके (Shyamu Ahakey)
पता-305, अर्जुन वार्ड, राजू टेंट हाऊस के पास,
बैतूल (म.प्र.).

(G-1714)

नाम परिवर्तन

मैं, मुनव्वर अली (Munavvar Ali) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मुनव्वर अली (Munavvar Ali) है जो कि सही है परंतु मेरे आधार कार्ड में लिपिक त्रुटि वश लाल मिया (Lal Miya) दर्ज हो गया जो कि गलत है. इस विज्ञप्ति के बाद मुझे मुनव्वर अली (Munavvar Ali) के नाम से ही जाना पहचाना और पुकारा जाए.

पुराना नाम
(लाल मिया)
(Lal Miya)

नया नाम
(मुनव्वर अली)
(Munavvar Ali)
पता-1994, गैस राहत कॉलोनी, हुजूर,
भोपाल (म.प्र.).

(G-1715)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S MANNAT ENTERPRISES जो NEAR GREEN FIELD SCHOOL GALI NO. 8, NAKA CHANDRAWADNI, GWALIOR जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00077/13,

दिनांक 12-08-2013 है, जिसमें दिनांक 22-08-2023 को भागीदार उदय पाठक पुत्र श्री गंगा संवक पाठक, निवासी यूनियन बैंक के पास जीवाजीगंज, लश्कर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 22-08-2023 को प्रियंका चतुर्वेदी पत्नी राकेश चतुर्वेदी, निवासी NEAR GREEN FIELD SCHOOL GALI NO. 8, NAKA CHANDRAWADNI, GWALIOR न्यू भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गई हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

M/S MANNAT ENTERPRISES,

(राकेश चतुर्वेदी)

भागीदार.

NEAR GREEN FIELD SCHOOL GALI NO. 8,

NAKA CHANDRAWADNI, GWALIOR.

(G-1716)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शर्मा ब्रदर्स पं. क्र. 04/14/01/00109/13 दिनांक 23-07-2013 पता 290, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) उक्त फर्म में दो भागीदार हैं 1. श्री मुरलीधर शर्मा पिता स्व. श्री जगन्नाथ शर्मा, 2. श्री अरुण शर्मा पिता स्व. श्री दीनानाथ शर्मा, सभी निवासी 290, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) उक्त फर्म में भागीदार क्र. 1. श्री मुरलीधर शर्मा की मृत्यु दिनांक 14-09-2022 को होने के कारण उनके स्थान पर उक्त दिनांक को भागीदार श्रीमती सुनंदा शर्मा पति श्री अरुण शर्मा, निवासी 290, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) भागीदार के रूप में सम्मिलित हुई हैं। वर्तमान फर्म में भागीदार 1. श्री अरुण शर्मा पिता स्व. श्री दीनानाथ शर्मा, 2. श्रीमती सुनंदा शर्मा पति श्री अरुण शर्मा, सभी निवासी 290, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) हैं। फर्म के नाम एवं पते में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

For Sharma Brothers,

(अरुण शर्मा)

(Partner).

(G-1717)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विदित बिल्डकॉन पं. क्र. 04/14/01/0156/17, दिनांक 26-09-2017, पता 932, चंचला बाई कॉलेज के सामने, राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.) उक्त फर्म में दो भागीदार हैं। 1. श्री नरेंद्र कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री छोटे लाल अग्रवाल, निवासी 123, जय नगर, कमला नेहरू नगर, विवेकानंद वार्ड, जबलपुर (म.प्र.), 2. श्री सतीश राय पिता स्व. श्री शम्भू प्रसाद राय, निवासी 3637, पत्रकार कॉलोनी, रानीताल, जबलपुर (म.प्र.) उक्त फर्म में दिनांक 19-10-2022 को श्री निमिष अग्रवाल पिता श्री नरेंद्र कुमार अग्रवाल, पता 24, दया नगर, यादव कॉलोनी, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.) भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं। वर्तमान फर्म में भागीदार 1. श्री नरेंद्र कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री छोटे लाल अग्रवाल, 2. श्री सतीश राय पिता स्व. श्री शम्भू प्रसाद राय, 3. श्री निमिष अग्रवाल पिता श्री नरेंद्र कुमार अग्रवाल है। फर्म के नाम एवं पते में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अतः किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था को कोई भी आपत्ति है तो वह 7 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार फर्म के कार्यालय जबलपुर में सूचित करें।

For VIDIT BUILDCON,

(नरेन्द्र अग्रवाल)

(Partner).

(G-1718)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स रमा कांस्ट्रक्शन कंपनी-मानस नगर बरा, रीवा, जिला रीवा (म.प्र.) में दिनांक 19-06-2008 से भागीदारी फर्म के रूप में ठेकेदारी कार्य कर रही हैं. उक्त फर्म में पूर्व में पांच भागीदार सम्मिलित थे, दिनांक 01-04-2023 के अनुरार अब फर्म की स्थित निम्नानुसार होगी :-

फर्म में मौजूद भागीदार	फर्म में जुड़ने वाले भागीदार	फर्म से हटने वाले भागीदार
1. श्री रामकैशाल जायसवाल	1. श्रीमती आशा जायसवाल	1. पारसनाथ जायसवाल
2. श्री रामानुज जायसवाल	2. अभिनव जायसवाल	2. प्रतिमा जायसवाल
		3. रामकरण जायसवाल

द्वारा भागीदार मेसर्स रमा कांस्ट्रक्शन कंपनी,
रामकैलाश जायसवाल,
(मैनेजिंग पार्टनर)
मानस नगर बरा रीवा,
जिला रीवा (म.प्र.).

(G-1719)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अलका पण्डया पत्नी श्री सुरेश सिंह पण्डया है एवं मेरा पुराना नाम किरन पण्डया है. यह की अलका पण्डया एवं किरन पण्डया दोनों मेरे ही नाम है. अतः शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में जहाँ भी भूल व त्रुटिवश मेरा पुराना नाम किरण पण्डया दर्ज है, उसे अलका पण्डया लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(किरन पण्डया)

नया नाम
(अलका पण्डया)
पत्नी-श्री सुरेश सिंह पण्डया,
निवासी-म. नं. एफ-85/11, तुलसी नगर,
के. टी. टी. नगर, भोपाल.

(G-1720)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम शारदा प्रसाद शुक्ला दर्ज है. परन्तु मेरे पुत्र रोहित शुक्ला के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम शारदा प्रसाद दर्ज है. जो कि गलत है. बल्कि मेरा सही नाम शारदा प्रसाद शुक्ला है एवं प्रकाशन उपरांत से मुझे मेरे सही नाम शारदा प्रसाद शुक्ला से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम
(शारदा प्रसाद/शारदा शुक्ला)

नया नाम
(शारदा प्रसाद शुक्ला)
पिता-श्री भुवनेश्वर प्रसाद शुक्ला.

(G-1721)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम रेखा पाटिल था, अब मेरा नाम बेबी बाई पाटिल है. अतः अब और भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(रेखा पाटिल)

नया नाम
(बेबी बाई पाटिल)
पति—श्री भानुदास पाटिल,
पता—331, लक्ष्मी पुरी कॉलोनी,
राम मंदिर के पास, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1722)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम श्रीकान्त माहेश्वरी (SREEKANT MAHESWARI) पिता श्री ताराचंद माहेश्वरी था, जो कि मेरी एल. आई. सी. की पॉलिसी शेयर प्रमाण पत्रों पर अंकित हो गया है. किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर श्रीकान्त बियाणी (SHRIKANT BIYANI) पिता श्री ताराचंद बियाणी कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेनकार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम श्रीकान्त बियाणी (SHRIKANT BIYANI) पिता श्री ताराचंद बियाणी के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(श्रीकान्त माहेश्वरी)
(SREEKANT MAHESWARI)

नया नाम
(श्रीकान्त बियाणी)
(SHRIKANT BIYANI)
पिता—श्री ताराचंद बियाणी,
पता—28, बागली मार्ग, हाटपीपल्या,
देवास (म.प्र.).

(G-1723)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आधार, पेनकार्ड में पहले घनश्याम पटेल लिखा गया था मेरा सही व पूरा नाम घनश्याम कुशवाह है मेरे सभी दस्तावेजों में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम
(घनश्याम पटेल)
(GHANSHYAM PATEL)

नया नाम
(घनश्याम कुशवाह)
(GHANSHYAM KUSHWAH)
पिता—कडोरीलाल कुशवाह,
निवासी—बरोडिया कला, मालथान,
सागर मध्यप्रदेश.

(G-1724)

आम सूचना

मेसर्स मध्यांचल एसोसिएट्स पंजीयन फर्म है, जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 01/01/01/00147/03 सन् 2003-2004 एवं पंजीयन दिनांक 05-01-2004 है. उक्त फर्म का पता-25, महाराणा प्रताप नगर जोन-2, भोपाल है. इस फर्म से 1. श्री एस. के. खोसला (एच.यू.एफ.) आत्मज स्व. डॉ. एस. एल. खोसला, निवासी—फ्लैट नं. 153, नव संसद, विहार सोसायटी,

प्लॉट नं. 04, सेक्टर 22, द्वारका न्यू, दिल्ली-110077 एवं 2, श्री वाय. पी. शर्मा आत्मज श्री राम प्रकाश शर्मा, निवासी-88/1, सिविल लाईनस, झांसी, उत्तर प्रदेश-284001 है, जो कि इस फर्म में से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 04-09-2023 दोनों पार्टनर पृथक हो गये हैं और इस फर्म में नये पार्टनर के रूप में श्रीमती ऋतु त्रिवेदी पुत्री श्री वाय. पी. शर्मा, निवासी ई-4/125, अरेरा कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश सम्मिलित हो रही हैं।

इस फर्म के श्री उपमन्यु त्रिवेदी आत्मज स्व. डॉ. आर. के. त्रिवेदी, निवासी ई-4/125, अरेरा कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश प्रारंभ से ही निरन्तर पार्टनर हैं।

For MADHYANCHAL ASSOCIATES,
(उपमन्यु त्रिवेदी)
(Partner).

(G-1725)

CHANGE OF NAME

I, Vidhi Mansukhani W/o Mr. Jagdish Mansukhani, R/o 48, New Type A, Sant Hirdaram Nagar (Bairagarh), Bhopal (M.P.), hereby declare that before marriage my name was Ku. Poonam Aildasani D/o Mr. Ishwar Das Aildasani. I got married according to Hindu customs with Mr. Jagdish Mansukhani & After Marriage my name has been changed as Mrs. Vidhi Mansukhani W/o Mr. Jagdish Mansukhani, after marriage I known as Mrs. Vidhi Mansukhani W/o Mr. Jagdish Mansukhani for all purposes on every records.

Old Name
(POONAM AILDASANI)

New Name
(VIDHI MANSUKHANI)

(G-1726)

आम सूचना

मेसर्स सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ARK CHEMICALS, 10-B, AKVN GROWTH CENTRE, SIDGUAN, SAGAR म.प्र. पंजीयन क्रमांक 06/09/01/0032/19 सन् 2019-2020 दिनांक 26-06-2019 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म में पंजीयन के समय Mr. ABHILASH JAIN, MRS GAJANAN KATARE & MR. NANDKISHOR KESHARWANI भागीदार थे। फर्म के भागीदारी से Mr. GAJANAN KATARE & MR. NANDKISHOR KESHARWANI दिनांक 01-04-2018 को स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हो गये और उक्त दिनांक 01-04-2018 को Mr. RAJESH JAIN & MR. PRAMOD JAIN फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 25-08-2023 को Mr. RAJESH JAIN & MR. PRAMOD JAIN स्वेच्छा से फर्म के भागीदारी से पृथक हो गये। उक्त दिनांक 25-08-2023 को को Mr. ANIL JAIN को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में फर्म में Mr. ABHILASH JAIN & Mr. ANIL JAIN भागीदार है। फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी व देनेदारी शेष नहीं है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है।

For ARK CHEMICALS,
(ABHILASH JAIN)
(Partner).

10-B, AKVN GROWTH CENTRE,
SIDGUAN, SAGAR, M.P.

(G-1727)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि " M/s Vaswani Brothers" पंजीयन क्रमांक 01 / 01 / 01 / 00101 / 10, सन् 2010-2011, दिनांक 28 मई 2010 पंजीकृत फर्म हैं। यह कि संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 01 अप्रैल 2018 को फर्म के भागीदार श्री अशोक कारना पिता स्व. श्री रेवा चंद तथा श्रीमती दीपा वासवानी पत्नी श्री नरेश कुमार वासवानी, इस भागीदारी फर्म से अपनी सहमति से बाहर हो रहे/रही हैं तथा श्रीमती वांशिका वासवानी पत्नी श्री जयदीप वासवानी तथा श्रीमती दीया वासवानी जी को आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है और फर्म का पुराना पता बदलकर नवीन पता-एमआईजी-(बी) 2 / 10, सेकेण्ड फ्लोर, रणथम्बौर काम्पलेक्स, चेतक ब्रिज के पास, जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल-462011 मध्यप्रदेश किया गया है। यह कि संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 01 सितम्बर 2022 को फर्म के भागीदार श्रीमती पूनम वासवानी पत्नी स्व. श्री हरीश वासवानी तथा श्री हरीश कुमार वासवानी (दिनांक 28-04-2022 को स्वर्गवास) पिता स्व. श्री नारायणदास वासवानी इस भागीदारी फर्म से, अपनी सहमति से, अलग हो रहे/रही हैं। आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो।

वास्ते-मेसर्स वासवानी ब्रदर्स,

(सुरेश कुमार वासवानी)

(भागीदार)

पता-एफ-10, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.).

(G-1728)

CHANGE OF NAME

I, DINESH KUMAR CARPENTER S/o SHANTILAL CARPENTER hereby declare that I have changed my name as DINESH PANCHAL S/o SHANTILAL CARPENTER so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name

(DINESH KUMAR CARPENTER)

New Name

(DINESH PANCHAL)

S/o Shantilal Carpenter,

Address- 653-A, Shiv City (Silver)

Near Silicon City Indore (M.P.).

(G-1729)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भास्कर ठाकरे आत्मज श्री सिरपत राव ठाकरे, पता-35, कुलबहरा, वार्ड नंबर-35, इमलीखेड़ा चौक, इमलीखेड़ा, छिन्दवाड़ा (म. प्र.) का निवासी हूँ। मेरे शैक्षणिक सर्टिफिकेट में मेरा नाम भास्कर ठाकरे (Bhasker Takre) अंकित है, जो कि गलत है। मेरा सही एवं वास्तविक नाम भास्कर ठाकरे (Bhasker Thakre) है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम भास्कर ठाकरे (Bhasker Thakre) से ही जाना व पहचाना जावेगा।

पुराना नाम

(भास्कर ठाकरे)

(Bhasker Takre)

नया नाम

(भास्कर ठाकरे)

(Bhasker Thakre)

(G-1730)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, तहसील-कोलार, जिला भोपाल
क्र. 2333-अ.वि.अ.-रीडर-2023 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023
प्र. क्र. बी 113 2023-24

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि आवेदकगण श्री केशव लाल दुबे (अध्यक्ष) निवासी- डुपलेक्स नं. 30, फेथकला एम्पायर, सुहागपुर, कोलार रोड भोपाल म0प्र0 462042 एवं अन्य 04 (चार) द्वारा "फेथकला मंदिर ट्रस्ट" न्यास कार्यालय "फेथकला एम्पायर, सुहागपुर, कोलार रोड, भोपाल म0प्र0 "म0प्र0 ट्रस्ट पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन किये जाने हेतु राशि रुपये 100/-, रुपये 1000/- का ई-स्टॉम्प एवं अन्य दस्तोवज संलग्न कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2023 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

"अनुसूची"

ट्रस्ट का नाम व पता	—	"फेथकला मंदिर ट्रस्ट" पता-फेथकला एम्पायर, सुहागपुर, कोलार रोड, भोपाल म0प्र0.
चल सम्पत्ति	—	निरंक
अचल सम्पत्ति	—	फेथकला मंदिर क्षेत्रफल 4000 वर्गफिट

आज दिनांक 18 अगस्त 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(G-1731)

आशुतोष गोस्वामी, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा जिला खंडवा म0प्र0
क्र. -रीडर-1-2023-2617 खंडवा, दिनांक 10 अगस्त 2023
प्र. क्र. 0003 -बी-113(1)-2023-24

प्रारूप चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं म.प्र. सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि पवन कुमार पिता रमेशचंद्र गीते निवासी शिवविहार कॉलोनी, सनावद जिला खरगोन ने अनुसूची में दर्शित न्यास संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु म.प्र. सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951, की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 31 अगस्त 2023 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

"अनुसूची"

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	—	"ग्रामीण विप्र पुजारी संगठन ट्रस्ट" अहमदपुर खैगांव तहसील व जिला खण्डवा
चल सम्पत्ति	—	21,000/- (शब्दों में इक्कीस हजार) नगद
अचल सम्पत्ति	—	निरंक

(G-1732)

अरविंद कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर

क्र. / लो.न्या.-2023-2755

बुरहानपुर, दिनांक 10 जुलाई 2023

प्र.क्र. -बी-113-2023-24

(नियम पाँच-1)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की लोक न्यास के पंजीयन बुरहानपुर जिला-बुरहानपुर के समक्ष श्री जैन श्रवेताम्बर तेरापंथी सभा ट्रस्ट, बुरहानपुर मध्यप्रदेश द्वारा न्यास लेखक श्री जतनलाल सेठिया पिता टिकमचंद सेठिया निवासी वार्ड नंबर 21 बुधवारा वार्ड सिंधी धर्मशाला, बुरहानपुर तहसील व जिला बुरहानपुर के द्वारा श्री जैन श्रवेताम्बर तेरापंथी सभा ट्रस्ट बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 10 जुलाई 2023 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है।

किसी आपत्ति या सुझाव करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	-	श्री जैन श्रवेताम्बर तेरापंथी सभा ट्रस्ट तहसील व जिला बुरहानपुर वर्किंग ट्रस्टी अध्यक्ष- जयचंदलाल पिता सुखलाल जैन निवासी- सिंधी धर्मशाला के पास इतवारा बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर
चल संपत्ति	-	2100/-रुपये
अचल संपत्ति	-	निरंक

(G-1733)

पल्लवी पुराणिक, पंजीयक

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास जूनी इंदौर, क्षेत्र जिला इंदौर (म.प्र.)

क्र. 334-रीडर-1-2023

जूनी इंदौर, दिनांक 21 अगस्त 2023

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951:तीसः (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री जैन श्रवेताम्बर तेरापंथी सभा, इन्दौर पता-585/2 सी, एम. जी. रोड, न्यु पलासिया, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एव समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल — चल संपत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का	—	श्री जैन श्वेताम्बर तेरागंधी सभा
नाम व पता		इन्दौर पता-585/2 सी, एम.जी. रोड, न्यु पलासिया, इन्दौर
चल संपत्ति	—	निरंक
अचल संपत्ति	—	निरंक

आज दिनांक 21 अगस्त 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-1734)

घनश्याम धनगर, पंजीयक

क्र. 267-रीडर-1-2023

जूनी इंदौर, दिनांक 2 मार्च 2023

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 :तीस: (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक सी 21 फाउण्डेशन पता 11 फ्लोर, सी-21, बिजनेस पार्क, एम. आर. 10, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल — चल संपत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का	—	आवेदक सी 21 फाउण्डेशन
नाम व पता		पता-11 फ्लोर, सी-21, बिजनेस पार्क, एम.आर. 10, इन्दौर
चल संपत्ति	—	1,00,000/-
अचल संपत्ति	—	निरंक

आज दिनांक 02 मार्च 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-1735)

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, क्षेत्र-धार, जिला धार

क्र. 5530-रीडर-1-2023

फार्म नम्बर 3

धार, दिनांक 28 अगस्त 2023

[देखिए नियम 4 (2)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 (तीस 1951) की धारा 4 के तहत न्यास पंजीयन बाबद्]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला धार

चूंकि ट्रस्ट "दिक्षांजली फाउण्डेशन ट्रस्ट" पता- 126, गणेश नगर, घाटाबिल्लोद डेहरीसराय, जिला धार की ओर से अध्यक्ष श्री मदनदास बैरागी पिता नारायणदास बैरागी, निवासी 126, गणेश नगर घाटाबिल्लोद, डेहरी सराय तहसील व जिला-धार ने इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बाबद् मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है, याद रखे कि ऊपर दिये हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 29 सितम्बर 2023 को किया जावेगा।

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बाबद् कोई विरोध कराने का इरादा हो या सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन दिनांक से एक माह में भेजने का तजवीब करे और मेरे समक्ष दिनांक 29 सितम्बर 2023 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त हुए आपत्ति, विचार योग्य नहीं मानी जावेगी.

आज दिनांक 28 अगस्त 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी की गई.

“अनुसूची”

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	—	“दिक्षांजली फाउण्डेशन ट्रस्ट”
		पता—126, गणेश नगर, घाटाबिल्लोद डेहरीसराय, जिला धार
चल संपत्ति	—	11,000/—
अचल संपत्ति	—	निरंक

(G-1736) रोशनी पाटीदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.प्र. शासन का उपक्रम) CIN:U40109MP2001SGC014880

मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन)

ब्लाक न. 2 शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर, (म.प्र.)

क्र. 04-02-195-यो. रूपां.-1926

जबलपुर, दिनांक 21 अगस्त 2023

अधिसूचना

यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा 67 (2) एवं धारा 176(2) ड के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डीमड ट्रांसमिशन लईसेंस) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अतिउच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने एवं विद्यमान पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है :-

(1) नाम : ये परियोजनायें 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट (केव्ही) लाइनों एवं उपकेंद्रों से संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी।

(2) परियोजनाओं का विवरण : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है :-

(I) महत्वपूर्ण नये विभागीय कार्य :

(अ) 220 केव्ही नवीन उपकेंद्र निर्माण :

(1) 220 केव्ही नवीन उपकेंद्र, सेंवधा (2X200 एमव्हीए एवं 1X 50 एमव्हीए), अनुमानित लागत रू.7488.72 लाख।

(2) 220 केव्ही नवीन उपकेंद्र, जतारा (2X200 एमव्हीए एवं 1X50 एमव्हीए) अनुमानित लागत रू.7630.04 लाख।

(3) 132 केव्ही उपकेंद्र, नरसिंगढ का 220 केव्ही में उन्नयन कार्य (2X200 एमव्हीए) अनुमानित लागत रू.5173.8 लाख।

(ब) 132 केव्ही नवीन उपकेंद्र निर्माण :

(1) 132 केव्ही नवीन उपकेंद्र, बिलौआ (2X50 एमव्हीए)

फीडर-बे का निर्माण कार्य :

(स) 220 केव्ही फीडर बे :

(1) 400 केव्ही उपकेंद्र नागदा (1नग- मे. पॉवर ग्रिड इनर्जी लिमि.हेतु) अनुमानित लागत रू. 321.28 लाख।

(2) 220 केव्ही उपकेंद्र छतरपुर (1 नग, टीकमगढ़-छतरपुर द्वितीय सर्किट हेतु) अनुमानित लागत रू. 398.5 लाख।

(3) 220केव्ही उपकेंद्र टीकमगढ़ (1 नग, टीकमगढ़-छतरपुर द्वितीय सर्किट हेतु) अनुमानित लागत रू.370.13 लाख।

- (4) 220 केव्ही उपकेंद्र गुजालपुर (2 नग), अनुमानित लागत रु. 691.6 लाख।
- (5) 220 केव्ही उपकेंद्र नरसिंहगढ़ (2 नग, लीलो लाईन हेतु)
- (6) 220 केव्ही उपकेंद्र मेहर (2 नग) अनुमानित लागत रु. 677.59 लाख।
- (7) 220 केव्ही उपकेंद्र अनूपपुर (2 नग) अमरकंटक -शहडोल लाईन के लीलो कार्य हेतु।
- (द) 132 केव्ही फीडर बे :
- (1) 132 केव्ही उपकेंद्र इंदरगढ़ (2 नग), अनुमानित लागत रु. 297.69 लाख।
- (2) 132 केव्ही उपकेंद्र सेवधा (2 नग, इंटर कनेक्टर फीडर), अनुमानित लागत रु. 297.69 लाख।
- (3) 132 केव्ही उपकेंद्र जतारा (2 नग), अनुमानित लागत रु. 298.83 लाख।
- (4) 132 केव्ही उपकेंद्र जतारा (1 नग), अनुमानित लागत रु. 297.47 लाख।
- (5) 132 केव्ही उपकेंद्र नौगांव (2 नग), अनुमानित लागत रु. 330.41 लाख।
- (6) 220 केव्ही उपकेंद्र टीकमगढ़ (1 नग), अनुमानित लागत रु. 164.12 लाख।
- (7) 132 केव्ही उपकेंद्र पीलूखेड़ी (2 नग) अनुमानित लागत रु. 297.47 लाख।
- (8) 132 केव्ही उपकेंद्र रून्हा (4 नग, रून्हा से कुरावर एवं रून्हा से बैरसिया डीसीडीएस लाईन हेतु) अनुमानित लागत रु. 530.27 लाख।
- (9) 132 केव्ही उपकेंद्र बैरसिया (2 नग, रून्हा से बैरसिया डीसीडीएस लाईन हेतु) अनुमानित लागत रु. 295.98 लाख।
- (10) 132 केव्ही उपकेंद्र ब्यावरा (2 नग, ब्यावरा-नरसिंहगढ़ डीसीडीएस लाईन हेतु) अनुमानित लागत रु. 294.03 लाख।
- (11) 220 केव्ही उपकेंद्र नरसिंहगढ़ (2 नग, ब्यावरा-नरसिंहगढ़ डीसीडीएस लाईन हेतु) अनुमानित लागत रु. 297.47 लाख।
- (12) 132 केव्ही उपकेंद्र सुतालिथा (2 नग, ब्यावरा-मकसूदनगढ़ लीलो लाईन हेतु) अनुमानित लागत रु. 297.47 लाख।
- (13) 132 केव्ही उपकेंद्र कालापीपल (1नग, कुरावर-कालापीपल डीसीडीएस लाईन हेतु) अनुमानित लागत रु. 164.12 लाख।
- (14) 132 केव्ही उपकेंद्र पृथ्वीपुर (1 नग) अनुमानित लागत रु. 156.65 लाख।
- (क) 400 केव्ही लाईन निर्माण कार्य :
- 400 केव्ही बिरसिंहपुर (टीपीएस)-कटनी के एक सर्किट का अमरकंटक के नये स्विचयार्ड में लीलो कार्य कुल लंबाई 74.929 किमी. अनुमानित लागत रु. 25026.28 लाख।
 - 400 केव्ही भोपाल-दमोह (पीजीसीआईएल) लाइन के एम सर्किट का सागर 400 केव्ही उपकेंद्र में लीलो लाईन, लंबाई 19 कि.मी. अनुमानित लागत रु. 6346.00 लाख।
- (ख) 220 केव्ही लाईन निर्माण कार्य :
- 220 केव्ही अमरकंटक-शहडोल सीधी के एक परिपथ का 220 केव्ही अनूपपुर-उपकेंद्र में लीलो कार्य।
 - अमरकंटक(टीपीएस) -अनूपपुर इंटर कनेक्टर लाईन और आरटीएस अनूपपुर लाईन को एटीपीएस स्विचयार्ड से अनूपपुर स्विचयार्ड में शिफ्ट करने का कार्य।
 - अमरकंटक (टीपीएस) स्विचयार्ड से निकलने वाली समस्त 220 केव्ही लाईनों को नये एटीपीएस स्विचयार्ड में शिफ्टिंग कार्य।
- (ग) 132 केव्ही लाईन एवं अन्य निर्माण कार्य :
- 220 केव्ही उपकेंद्र दमोह से 132 केव्ही उपकेंद्र पटेरा के कंडक्टर उन्नयन का कार्य। कुल लंबाई 38.93 किमी. अनुमानित लागत रु. 2930.42 लाख।
 - 132 केव्ही उपकेंद्र ग्वालियर-हस्तिनापुर लाईन के एक सर्किट का 132 केव्ही उपकेंद्र में लीलो कार्य, लंबाई 10.561 किमी. अनुमानित लागत रु. 1200.00 लाख।
 - 132 केव्ही रहली-देवरी डीसीडीएस लाईन, लंबाई 32 कि.मी. अनुमानित लागत रु. 3200.00 लाख।
 - 132 केव्ही उपकेंद्र माढोताल, अयोध्यानगर, सत्यसाई का आटोमेशन कार्य (3नग) अनुमानित लागत रु. 712.00 लाख।
 - 220 केव्ही उपकेंद्र नयागाँव, जबलपुर की चहार दीवार बनाने का कार्य, अनुमानित लागत रु.28.02 लाख।
 - 132 केव्ही उपकेंद्र बालाघाट केम्पस में टीएलएम उपसंभाग हेतु 4 वेज शेड का निर्माण, अनुमानित लागत रु.37.843लाख।
- (घ) परिणामित्र क्षमता वृद्धि कार्य :
- 132 केव्ही उपकेंद्र आष्टा (40 से 63 एमव्हीए), (2) 220 केव्ही उपकेंद्र बैतूल (40 से 63 एमव्हीए)
 - 132 केव्ही उपकेंद्र देवास एमएसपी (40 से 63 एमव्हीए), (4) 132 केव्ही उपकेंद्र मनसकरा (40 से 63 एमव्हीए)
 - 132 केव्ही उपकेंद्र धामनोद (16से 50 एमव्हीए) अनुमानित लागत रु. 25.89 लाख
- (च) अतिरिक्त परिणामित्र स्थापना कार्य :
- 132 केव्ही उपकेंद्र बरही (50 एमव्हीए)

(II) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :

(छ) 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य :

- (1) 220 के.व्ही उपकेंद्र निमरानी (1 नग, निमरानी ट्रेक्शन द्वितीय सर्किट हेतु) अनुमानित लागत रु. 130.9 लाख।
- (2) 132 के.व्ही उपकेंद्र नौगाँव (1 नग, हरपालपुर ट्रेक्शन द्वितीय सर्किट हेतु) अनुमानित लागत रु. 134.34 लाख।
- (3) 132 के.व्ही उपकेंद्र राजमिलान (1 नग, मेसर्स ईएमआईएल एवं ईएमएमआरएल हेतु) अनुमानित लागत रु. 136.24 लाख।

(ज) 33 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य :

- (1) 220 के.व्ही उपकेंद्र नलखेडा (1नग- जनरल मैनेजर पीआईयू, रायगढ- जल निगम हेतु)
- (2) 220 के.व्ही उपकेंद्र सारणी (2 नग- वेस्टर्न कोल फील्ड लिमि. हेतु)
- (3) 132 के.व्ही उपकेंद्र अयोध्यानगर (2नग),
- (4) 132 के.व्ही उपकेंद्र सलामतपुर (2 नग-एबीटी मीटर स्थापना कार्य सोलर सिटी हेतु)
- (5) 132 के.व्ही उपकेंद्र सलामतपुर (1 नग-एबीटी मीटर स्थापना कार्य एनएचडीसी हेतु)
- (6) 132 के.व्ही उपकेंद्र आरोन (1 नग-एमपीडब्ल्यू आर डी गुना हेतु) अनुमानित लागत रु. 40.88 लाख।
- (7) 132 के.व्ही उपकेंद्र सहरवासा (1 नग-कथा बैराज परियोजना हेतु) अनुमानित लागत रु. 40.5 लाख।
- (8) 132 के.व्ही उपकेंद्र पोलायकला (1 नग-मेसर्स पिकन्यू एनर्जी प्रा.लिमि.इंदौर हेतु) अनुमानित लागत रु. 46.65 लाख।

(झ) 400 के.व्ही पारिषण लाईन :

1. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर एनएच-347 बीजी एवं एनएच-753 के मध्य निर्मित बलवाड़ा-धनगांव 4 लेन रोड के कारण 400 के.व्ही. डीसीडीएस एसएसटीपीएच-पीथमपुर क्वाड मूस लाईन के सर्किट-3 व सर्किट-4 के लोकेशन क्रमांक 128 से 133 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1.2 किमी. अनुमानित लागत रु. 688.61 लाख।
- (ट) 220 के.व्ही पारिषण लाईन :
 1. लोक निर्माण विभाग जिला बैतूल द्वारा 220 के.व्ही. डीसीडीएस सारनी पांडुरना बैतूल लाइन के लोकेशन क्रमांक 81-82 के मध्य सड़क के निर्माण के कारण उखाई बढाने के लिए लोकेशन क्रमांक 81 और 83 आर के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X0.61 किमी. अनुमानित लागत रु. 23.49 लाख।
 2. मेसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली (मेसर्स पीजीसीआईएल दिल्ली) के सौर परियोजना स्थल से होकर गुजरने वाली 220 के.व्ही डीसीडीएस नागदा -उज्जैन लाइन के लोकेशन क्रमांक 146 से 160 के मध्य डायवर्जन कार्य, कुल लंबाई 2X5.5 किमी. अनुमानित लागत रु. 841.16 लाख।
 3. मेसर्स कन्टिनम एमपी विंड फार्म डेवेलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई के विन्ड/सोलर पावर प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी देने हेतु 220के.व्ही. डीसीडीएस भातखेडा(मेसर्स डीजे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड)-220के.व्ही. उपकेंद्र दलौदा लाइन के दोनों परिपथों की क्षमता को बढाने हेतु एसीएसआर जेबरा कंडक्टर को जेबरा समकक्ष उच्च एम्पेसिटी कंडक्टर से बदलने का कार्य, कुल लंबाई 2X20.4 किमी. अनुमानित लागत रु. 3080.47 लाख।
 4. मेसर्स डीबी इंफ्रस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित अवासीय कॉम्प्लेक्स के कारण 220के.व्ही. डीसीडीएस इंदौर-जैतपुर(भागालिया) लाइन के लोकेशन क्रमांक 67 से 71ए तक संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1.1 किमी. अनुमानित लागत रु. 214.8 लाख।
 5. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर एनएच-347बीजी एवं एनएच-753 के मध्य निर्मित बलवाड़ा-धनगांव 4 लेन रोड के कारण 220के.व्ही. डीसीडीएस बड़वाहा-इंदौर लाईन के सर्किट-1 व सर्किट-2 के लोकेशन क्रमांक 117 से 123 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X2.1 किमी. अनुमानित लागत रु. 406.33 लाख।
 6. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड एनएच-347बीजी एवं एनएच-753 के मध्य निर्मित बलवाड़ा-धनगांव 4 लेन रोड के कारण 220के.व्ही. डीसीडीएस बड़वाहा-इंदौर लाईन के सर्किट-1 व सर्किट-2 के लोकेशन क्रमांक 148 से 153 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1.9 किमी. अनुमानित लागत रु. 277.48 लाख।
 7. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड एनएच-347बीजी एवं एनएच-753 के मध्य निर्मित बलवाड़ा-धनगांव 4 लेन रोड के कारण 220के.व्ही. डीसीडीएस बड़वाहा-इटारसी(बड़वाहा-हाण्डिया) लाईन के लोकेशन क्रमांक 597 से 602 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1.5 किमी. अनुमानित लागत रु. 203.78 लाख।

8. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड एनएच-347बीजी एवं एनएच-753 के मध्य निर्मित बलवाडा-धनगांव 4 लेन रोड के कारण 220के.व्ही. डीसीडीएस बड़वाहा-ओंकारेश्वर(ओंकारेश्वर-निमरानी) लाईन के लोकेशन क्रमांक 70 से 77 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1.8 किमी. अनुमानित लागत रु. 219.18 लाख।
9. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड एनएच-347बीजी एवं एनएच-753 के मध्य निर्मित बलवाडा-धनगांव 4 लेन रोड के कारण 220के.व्ही. डीसीडीएस ओंकारेश्वर-खण्डवा/220के.व्ही. ओंकारेश्वर-छेगांव/220के.व्ही. ओंकारेश्वर-जुलवानिया/220के.व्ही. एलडीएलई डेड फीडर मल्टीसर्किट लाईन के लोकेशन क्रमांक 74 से 80 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1.7 किमी. अनुमानित लागत रु. 308.30 लाख।
10. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश में 2 लेन को 4 लेन में निर्मित करने हेतु जबलपुर सिटी डिजाइन के किमी 2/900 से 19/000 तक(बरेला से मानेगांव) रिंग रोड के पुनःस्थापन एवं उन्नयन के कारण 220के.व्ही. डीसीडीएस जबलपुर-अमरकण्टक लाईन के लोकेशन क्रमांक 35 से 42 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X2.3 किमी. अनुमानित लागत रु. 560.04 लाख।
11. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश में 2 लेन को 4 लेन में निर्मित करने हेतु जबलपुर सिटी डिजाइन के किमी 2/900 से 19/000 तक(बरेला से मानेगांव) रिंग रोड के पुनःस्थापन एवं उन्नयन के कारण 220के.व्ही. डीसीडीएस जबलपुर-बिरसिंहपुर लाईन के लोकेशन क्रमांक 26 से 29 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X0.9 किमी. अनुमानित लागत रु. 170.36 लाख।
12. 220 के व्ही महलगॉव-दतिया लाइन रमूआ बांध के डूब क्षेत्र में आने के कारण लो.क्र 17-26 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य कुल लंबाई 3.406 किमी. अनुमानित लागत रु. 700.00 लाख।
13. 220 के व्ही सारणी-पांडुरना लाइन के लो.क्र 81-82 के मध्य खापाखेतोडा-काजली मार्ग के निर्माण के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य कुल लंबाई 0.607 किमी. अनुमानित लागत रु. 23.49 लाख।

(ट) 132 के व्ही पारिषण लाईन :

1. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर निर्मित एनएच-752डी (पुराना एनएच-148एनजी) के खेडाखजूरिया-सुहागडी (उज्जैन-गरोठ पैकेज-2) के किमी 41.400 से किमी 89.200 के निर्माण के कारण 132 के व्ही.(डीसीएसएस) बडोद-अलोट लाईन के लोकेशन क्रमांक 78 से 83 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1X1.8 किमी. अनुमानित लागत रु. 184.26 लाख।
2. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर निर्मित एनएच-752डी (पुराना एनएच-148एनजी) के खेडाखजूरिया-सुहागडी (उज्जैन-गरोठ पैकेज-2) के किमी 41.400 से किमी 89.200 के निर्माण के कारण 132के.व्ही.(डीसीडीएस) बडोद-सुवासरा लाईन के लोकेशन क्रमांक 307 से 313 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2.2X2 किमी अनुमानित लागत रु. 260.01 लाख।
3. डब्ल्यू आर रतलाम द्वारा दाहोद-इंदौर खंड के मध्य प्रस्तावित गुनावद रेल्वे स्टेशन (रेल्वे चैनेज 152.400) पर कंडक्टर की न्यूनतम ऊंचाई को बनाये रखने के कारण 132 के व्ही एकल परिपथ घाटाबिल्लोद-धार एवं लोकेशन क्रमांक 171से 180 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1X2.5 किमी. अनुमानित लागत रु. 378.83 लाख।
4. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर निर्मित 4 लेन देवास-उज्जैन रोड के चैनेज क्रमांक 0.000-19.733, निर्माणाधीन 4 लेन उज्जैन बायपास चैनेज क्रमांक 19.733-26.900 (पार्ट-1) एवं 4 लेन देवास बायपास चैनेज क्रमांक 0.000-14.520(पार्ट-2) के निर्माण के कारण 132के.व्ही.एकल परिपथ उज्जैन-देवास लाईन के लोकेशन क्रमांक 59से 64 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1X1.6किमी. अनुमानित लागत रु. 161.08 लाख।
5. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर निर्मित 4 लेन देवास-उज्जैन रोड के चैनेज क्रमांक 0.000-19.733, निर्माणाधीन 4 लेन उज्जैन बायपास चैनेज क्रमांक 19.733-26.900(पार्ट-1) एवं 4 लेन देवास बायपास चैनेज क्रमांक 0.000-14.520(पार्ट-2) के निर्माण के कारण 220 के व्ही. डीसीडीएस उज्जैन-हथौनिया (पीजीसीआईएल) लाईन के लोकेशन क्रमांक 184 से 189 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1.4 किमी. अनुमानित लागत रु. 242.8 लाख।

6. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर निर्मित 4 लेन देवास-उज्जैन रोड के चैनेज क्रमांक 0.000-19.733, निर्माणाधीन 4 लेन उज्जैन बायपास चैनेज क्रमांक 19.733-26.900(पार्ट-1) एवं 4 लेन देवास बायपास चैनेज क्रमांक 0.000-14.520(पार्ट-2) के निर्माण के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस उज्जैन-जैतपुरा/सांवेर लाईन के लोकेशन क्रमांक 32 से 37 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1.4 किमी. अनुमानित लागत रु. 106.43 लाख।
7. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर निर्मित 4 लेन देवास-उज्जैन रोड के चैनेज क्रमांक 0.000-19.733, निर्माणाधीन 4 लेन उज्जैन बायपास चैनेज क्रमांक 19.733-26.900(पार्ट-1) एवं 4 लेन देवास बायपास चैनेज क्रमांक 0.000-14.520(पार्ट-2) के निर्माण के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस उज्जैन-जैतपुरा/सांवेर लाईन के लोकेशन क्रमांक 32 से 37 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1.30 किमी. अनुमानित लागत रु. 152.5 लाख।
8. मेसर्स ईमिल माइन्स एवं मिनिरल रिसोर्स लिमिटेड(ईएमएमआरएल), सिंगरौली के बांधा कोल माइन्स के लिए 132के.व्ही. उपकेन्द्र राजमिलान में ईएमएमआरएल के प्लांट तक 132 के.व्ही.डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य, कुल लंबाई 1X16 किमी. अनुमानित लागत रु. 26.75 लाख।
9. रेल्वे इलैक्ट्रिफिकेशन, लखनू द्वारा निर्मित 132के.व्ही. उपकेन्द्र नौगांव से आरटीएस हरपालपुर तक 132के.व्ही. 2फेस 2वायर(डीसीएसएस) का द्वितीय परिपथ का निर्माण कार्य, कुल लंबाई 1X50 किमी. अनुमानित लागत रु. 1202.21 लाख।
10. एनसीआर झांसी के आरटीएस निवाड़ी तक 132के.व्ही. उपकेन्द्र निवाड़ी से लिलो पॉइन्ट तक 132के.व्ही. डीसीडीएस का निर्माण एवं तत्पश्चात लिलो पॉइन्ट से आरटीएस निवाड़ी तक द्वितीय परिपथ का निर्माण कार्य, कुल लंबाई 2X8+1X0.3 किमी. अनुमानित लागत रु. 794.14 लाख।
11. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर एनएच-347बीजी एवं एनएच-753 के मध्य निर्मित बलवाड़ा-धनगांव 4 लेन रोड के कारण 220के.व्ही. डीसीडीएस बड़वाहा-इंदौर लाईन के सर्किट-1 व सर्किट-2 के लोकेशन क्रमांक 123 से 128 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1.8 किमी. अनुमानित लागत रु. 372.87 लाख।
12. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर एनएच-347 बीजी एवं एनएच-753 के मध्य निर्मित बलवाड़ा-धनगांव 4 लेन रोड के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस बड़वाहा-सिमरोल लाईन के लोकेशन क्रमांक 145 से 153 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X2.8 किमी. अनुमानित लागत रु. 338.87 लाख।
13. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड एनएच-347बीजी एवं एनएच-753 के मध्य निर्मित बलवाड़ा-धनगांव 4 लेन रोड के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस बड़वाहा-किशनगढ़ लाईन के लोकेशन क्रमांक 11 से 16 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1X1.8 किमी. अनुमानित लागत रु. 191.9 लाख।
14. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड एनएच-347बीजी एवं एनएच-753 के मध्य निर्मित बलवाड़ा-धनगांव 4 लेन रोड के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस बड़वाहा-सिमरोल लाईन के लोकेशन क्रमांक 163 से 170 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X2.5 किमी. अनुमानित लागत रु. 279.22 लाख।
15. म.प्र.औद्योगिक विकास निगम लिमि. के पी.एम.मित्र इंडस्ट्रियल पार्क भैंसोला तहसील भरावर जिला धार म.प्र. को कुल 185 एमव्हीए पॉवर प्रदायहेतु 400 के.व्ही. उपकेन्द्र बदनावर से इंडस्ट्रियल पार्क भैंसोला तक 220 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कुल लंबाई 20 किमी. अनुमानित लागत रु. 2712 लाख।
16. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड एनएच-347बीजी एवं एनएच-753 के मध्य निर्मित बलवाड़ा-धनगांव 4 लेन रोड के कारण 132के.व्ही. डीसीएसएस बड़वाहा-पीएस-1(एनव्हीडीए) लाईन के लोकेशन क्रमांक 4 से 8 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1X1.2 किमी. अनुमानित लागत रु. 151.89 लाख।
16. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड एनएच-347 बीजी एवं एनएच-753 के मध्य निर्मित बलवाड़ा-धनगांव 4 लेन रोड के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस बड़वाहा-सनावद(सनावद-छेगांव) लाईन के लोकेशन क्रमांक 70 से 77 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1.6 किमी. अनुमानित लागत रु.163.39 लाख।
17. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीयूआई, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश में 2 लेन को 4 लेन में निर्मित करने हेतु जबलपुर सिटी डिजाइन के किमी 2/900 से 19/000 तक(बरेला से मानेगांव) रिंग रोड के पुनःस्थापन एवं उन्नयन के कारण 132के.व्ही. डीसीएसएस जबलपुर-मनेरी लाईन के लोकेशन क्रमांक 42 से 49 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1X2 किमी. अनुमानित लागत रु. 155.45 लाख।

18. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीपूआई, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश में 2 लेन को 4 लेन में निर्मित करने हेतु जबलपुर सिटी डिजाइन के किमी 2/900 से 19/000 तक (धरला से नानेगांव) रिंग रोड के पुनःस्थापन एवं उन्नयन के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस जबलपुर-बरगी लाईन के लोकेशन क्रमांक 23 से 28 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1X1.5 किमी, अनुमानित लागत रु. 158.91 लाख।
19. एनसीआर आगरा द्वारा ग्वालियर-श्योपुर कलां सेक्शन के मध्य गेज कर्नलजन के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस सबलगढ़-श्योपुर लाईन के लोकेशन क्रमांक 348 से 357 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X3.3 किमी, अनुमानित लागत रु. 412.77 लाख।
20. एनसीआर आगरा द्वारा ग्वालियर-श्योपुर कलां सेक्शन के मध्य गेज कर्नलजन के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस सबलगढ़-श्योपुर लाईन के लोकेशन क्रमांक 304 से 317 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X4.5 किमी, अनुमानित लागत रु. 389.16 लाख।
21. एनसीआर आगरा द्वारा ग्वालियर-श्योपुर कलां सेक्शन के मध्य गेज कर्नलजन के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस सबलगढ़-श्योपुर लाईन के लोकेशन क्रमांक 394 से 405 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X4.3 किमी, अनुमानित लागत रु. 487.71 लाख।
22. पीडब्ल्यूडी, सागर द्वारा मलखेडी-करोड़ रेल सेक्शन के बीना-मालथोन रोड रेलवे चैनेज क्रमांक 980/9-10 पर रेल ओवर ब्रिज(आरओबी) के निर्माण के कारण 132के.व्ही. बीना-पिछोर लाईन के लोकेशन क्रमांक 382 से 383 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X2.0 किमी, अनुमानित लागत रु. 162.93 लाख।
23. पीडब्ल्यूडी, सागर द्वारा बीना-कटनी सेक्शन के रेलवे ग्रेड क्रॉसिंग क्रमांक 307-बी(सागर फाटक), चैनेज क्रमांक 317.05 मीटर पर रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के कारण 132 के.व्ही. बीना-आटीएस परिपथ 1 एवं परिपथ लाईन के लोकेशन क्रमांक 01 से 07 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1 किमी, अनुमानित लागत रु. 265.72 लाख।
24. मेसर्स सिपला लिमिटेड के प्लॉट क्रमांक 09 से 10, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर एसईजेड फेस-2, तहसील-पीथमपुर, जिला-धार के मध्य 132के.व्ही. डीसीडीएस पीथमपुर इंटरकनेक्टर एवं एसईजेड में लिलो लाईन के विस्थापन/संशोधन का कार्य, कुल लंबाई 2X0.7 किमी, अनुमानित लागत रु. 118.78 लाख।
25. श्री अनिरुद्ध कासलीवाल ग्राम-लिम्बोडी, जिला-इंदौर में स्थित के परिसर से होकर गुजरने वाली 132के.व्ही. एकल परिपथ इंदौर(साउथ जोन)-घाटाबिल्लोद लाईन के लोकेशन क्रमांक 2 से 6 के मध्य विस्थापन/संशोधन का कार्य, कुल लंबाई 2X1.0 किमी अनुमानित लागत रु. 43.29 लाख।
26. डब्ल्यूसीआर जबलपुर द्वारा जबलपुर-गोंदिया एवं जबलपुर-इटारसी को जोड़ने वाली प्रस्तावित कॉर्ड लाइन के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस जबलपुर-व्हीएफजे लाईन के लोकेशन क्रमांक 25 से 29 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2X1.5 किमी अनुमानित लागत रु. 634.67 लाख।
27. 132 के.व्ही. उपकेन्द्र नौगांव से 132 के.व्ही. उपकेन्द्र हरपालपुर रेलवे ट्रैक्शन के द्वितीय परिपथ का कार्य, कुल लंबाई 50 किमी अनुमानित लागत रु. 1202.21 लाख।
28. 132 के.व्ही. सबलगढ़-श्योपुर लाइन के लो. क्र. 28-34 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1.685 किमी, अनुमानित लागत रु. 200.00 लाख।
29. 132 के.व्ही. सबलगढ़-श्योपुर लाइन के लो. क्र. 304-317 के मध्य रेलवे द्वारा ग्वालियर-श्योपुरकलां के मध्य गैज परिवर्तन के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 4.47 किमी, अनुमानित लागत रु. 387.24 लाख।
30. 132 के.व्ही. सबलगढ़-श्योपुर लाइन के लो. क्र. 348-357 के मध्य रेलवे द्वारा ग्वालियर-श्योपुरकलां के मध्य गैज परिवर्तन के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 3.232 किमी, अनुमानित लागत रु. 415.31 लाख।
31. 132 के.व्ही. सबलगढ़-श्योपुर लाइन के लो. क्र. 394-405 के मध्य रेलवे द्वारा ग्वालियर-श्योपुरकलां के मध्य गैज परिवर्तन के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 4.262 किमी, अनुमानित लागत रु. 523.75 लाख।
32. 132 के.व्ही. बीना रेलवे ट्रैक्शन लाइन के लो. क्र. 01-07 के मध्य रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 0.968 किमी, अनुमानित लागत रु. 142.74 लाख।
33. 132 के.व्ही. बीना-पिछोर लाइन के लो. क्र. 374-387 के मध्य रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 3.824 किमी, अनुमानित लागत रु. 109.78 लाख।
34. मे. डी.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमि. के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के विकास के कारण 220 के.व्ही. इंदौर-जैतपूरा/मांगलिया लाइन के लो. क्र. 67-71अ के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1.1 किमी, अनुमानित लागत रु. 214.80 लाख।
35. पश्चिम रेलवे के अंतर्गत दाहोद-इंदौर सेक्शन में गुनावद रेलवे स्टेशन के निर्माण के कारण 132 के.व्ही. घाटाबिल्लोद-धार लाइन के लो. क्र. 171-180 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2.485 किमी, अनुमानित लागत रु. 378.83 लाख।

36. पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत जबलपुर-गोंदिया एवं जबलपुर-इंदारसो अप लाइन के मध्य कौर्डे लाइन के निर्माण के कारण 132 के व्ही जबलपुर-व्ही.एफ.ज लाइन के लो. क्र. 25-29 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1.434 किमी, अनुमानित लागत रु. 6,34.67 लाख।
37. पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत रामगंज मंडी - भोपाल के मध्य नई रेलवे लाइन के निर्माण के कारण 220 के व्ही भोपाल-आष्टा/मुगलियाछाप लाइन के लो. क्र. 71-88 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1.195 किमी, अनुमानित लागत रु. 389.71 लाख।
38. पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत रामगंज मंडी - भोपाल के मध्य नई रेलवे लाइन के निर्माण के कारण 220 के व्ही भोपाल-शुजालपुर लाइन के लो. क्र. 69-86 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1.244 किमी, अनुमानित लागत रु. 357.77 लाख।
39. पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत रामगंज मंडी - भोपाल के मध्य नई रेलवे लाइन के निर्माण के कारण 132 के व्ही पचोर-ब्यावरा लाइन के लो. क्र. 188-206 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1.588 किमी, अनुमानित लागत रु. 347.76 लाख।
40. पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत रामगंज मंडी - भोपाल के मध्य नई रेलवे लाइन के निर्माण के कारण 132 के व्ही श्यामपुर-पीलूखेडी लाइन के लो. क्र. 67-80 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 0.682 किमी, अनुमानित लागत रु. 273.63 लाख।
41. पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत रामगंज मंडी - भोपाल के मध्य नई रेलवे लाइन के निर्माण के कारण 132 के व्ही बैरागढ़-कुरावर लाइन के लो. क्र. 186-207 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1.272 किमी अनुमानित लागत रु. 322.24 लाख।
42. पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत रामगंज मंडी - भोपाल के मध्य नई रेलवे लाइन के निर्माण के कारण 132 के व्ही बैरागढ़-सिहोर लाइन के लो. क्र. 21-27 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1.537 किमी, अनुमानित लागत रु. 383.39 लाख।
43. म.प्र. सडक विकास निगम द्वारा एन.एच-12 से एन.एच-69 के मध्य लिंक रोड के निर्माण के कारण 132 के व्ही ओबेदुल्लागंज रेलवे ट्रैक्शन लाइन के लो. क्र. 13-16 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1 किमी अनुमानित लागत रु. 36.91 लाख।
44. 132 के व्ही मुंगावली-आरटीएस करौंदा लाईन 26 कि.मी.

(3) कुल अनुमानित लागत :

उपरोक्त कार्य की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 605 करोड है।

(4) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी। विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं। (4) एतद् द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

आर. के. खंडेलवाल, मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं.प्रशा.).

(G-1737)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2023—भाद्र 17, शक 1945

भाग ३ (२)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)